

EAD ONLINE CLASSES

Objective Book for

Electrical-JE

Electronics-JE

ITI-Electrician

JE Short Notes



Buy our Books at:-


eadbooks.in
 Amazon

Exam Targeted:-

UPPCL-JE, SSC-JE RRB-JE
PGCIL-DT, DFCCIL-JE, ITI Etc.



Raman sir
Electrical Engg. Expert



LOCATION

DEHRADUN CENTRE

EAD Educational Group, Pithuwalan kalan, Dehradun (UK)

PRAYAGRAJ CENTRE

EAD Educational Group, Horizon public school,
Pandey Tower, Om gayatari nagar, Near shiv chowraha ,
Salori Prayagraj (UP)

Contact us:-

9389976136

Download EAD Online Classes application on playstore





RAILWAY RECRUITMENT BOARDS

रेलवे भर्ती बोर्ड

RRB ALP & TECHNICIANS 2018

Roll No:	
Participants Name:	
Test Center Name:	iON Digital Zone iDZ Hooghly
Test Date:	09/08/2018
Test Time:	10:00 AM - 11:00 AM
Subject:	ALP Technicians

- Options shown in green color with a tick icon are correct
- Chosen option on top right of the question indicates the option selected by the candidate

Q.1 एक उत्तल दर्पण, जिसकी फोकल लम्बाई f (वायु में) है, को एक द्रव ($\mu = 4/3$) में डुबोया जाता है। द्रव में दर्पण की फोकल लंबाई क्या होगी?

A convex mirror of focal length f (in air) is immersed in a liquid ($\mu = 4/3$). The focal length of the mirror in liquid will be:

- Ans
- 1. $(4/3)f$
 - 2. $(3/4)f$
 - 3. $(7/3)f$
 - 4. f

Q.2 दिए गए वस्तुओं के समूह के संबंध में सबसे उचित शब्द का चयन करें।



Select the most appropriate term for the given set of items.



- Ans
- 1. फाइन आर्ट्स
Fine arts
 - 2. चित्र
Pictures
 - 3. संस्कृति
Culture
 - 4. प्रौद्योगिकी
Technology

Q.3 मार्च 2018 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार इलाहाबाद बैंक के एम.डी. और सीईओ कौन हैं?

Who is the MD and CEO of Allahabad Bank as of March 2018?

- Ans
- 1. अरुंधति भट्टाचार्या
Arundhathi Bhattacharya
 - 2. चित्रा रामकृष्ण
Chitra Ramakrishna

✗ 3. शिखा शर्मा
Shikha Sharma

✓ 4. उषा अनंतसुब्रमण्यन

Usha Ananthasubramanian

Q.4 यदि $9 \times 6 = 45$, $7 \times 4 = 33$ और $6 \times 4 = 20$ है, तो

5×3 का मान कितना होगा?

If $9 \times 6 = 45$, $7 \times 4 = 33$ and $6 \times 4 = 20$, then what is the value of 5×3 ?

Ans ✗ 1. 13

✓ 2. 16

✗ 3. 24

✗ 4. 10

Q.5 तपस, अवी और ऋषि के बीच एक केक को बांटा गया। तपस को केक का $\frac{1}{2}$ भाग मिला, ऋषि को $\frac{1}{3}$ भाग और शेष अवी को प्राप्त हुआ। अवी को कितना भाग प्राप्त हुआ?

Tapas, Avi and Rishi shared a cake. Tapas had $\frac{1}{2}$ of it, Rishi had $\frac{1}{3}$ of it and Avi had the rest. What was Avi's share of the cake?

Ans ✗ 1. $\frac{3}{5}$

✗ 2. $\frac{2}{6}$

✗ 3. $\frac{3}{6}$

✓ 4. $\frac{1}{6}$

Q.6 नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी के दिशा के विपरीत होता है?

Negative acceleration is in the opposite direction of:

Ans ✓ 1. वेग
velocity

✗ 2. बल
force

✗ 3. दूरी
distance

✗ 4. गति
momentum

Q.7 निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगी?

Which of the following numbers will have an irrational square root?


Ans ✓ 1. 2048

✗ 2. 2401


✗ 3. 1024

✗ 4. 4096

Q.8



उपरोक्त वृत्त में, चाप \overline{AB} को स्पर्शरेखा \overline{DE} से D बिंदु पर मिलानेके लिए बढ़ाया जाता है। यदि $\overline{AB} = 12$ cm और $\overline{DE} = 8$ cm हो, तो \overline{BD} की लंबाई ज्ञात करें।



In the circle above, chord \overline{AB} is extended to meet the tangent \overline{DE} at D. If $\overline{AB} = 12$ cm and $\overline{DE} = 8$ cm, find the length of \overline{BD} .

Ans

- 1. $4\sqrt{6}$ सेंटीमीटर
 $4\sqrt{6}$ cm
- 2. 6 सेंटीमीटर
6 cm
- 3. 4 सेंटीमीटर
4 cm
- 4. 5 सेंटीमीटर
5 cm

Q.9 निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है?

By which of the following processes are metals of high reactivity extracted from purified molten ore?

Ans

- 1. कैल्सिनेशन
Calcination
- 2. इलेक्ट्रोलिसिस
Electrolysis
- 3. रोस्टिंग
Roasting
- 4. उपयुक्त एजेंट द्वारा अपचयन
Reduction by an appropriate reducing agent

Q.10 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक खिड़की तक पहुँचती है, जो सड़क के किनारे की जमीन से 12 मीटर ऊपर है। यदि इसके पाद को उसी बिंदु पर रखते हुए सीढ़ी को सड़क के दूसरी ओर से लगाया जाए तो यह खिड़की तक 5 मीटर ऊँचाई तक पहुँचती है। सड़क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए?

A ladder 13 m long reaches a window which is 12 m above the ground on side of a street. Keeping its foot at the same point, the ladder is turned to the other side of the street to reach a window 5m high, then the width of the street is:

Ans

- 1. 17 मीटर
17 m
- 2. 16 मीटर
16 m
- 3. 14 मीटर
14 m
- 4. 15 मीटर
15 m

Q.11

इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रोफ है ?

Which of the following is a Saprotroph?

Ans

- 1. कबूतर
Pigeon
- 2. कुकुरमुत्ता
Mushroom
- 3. शैवाल
Algae
- 4. पुरुष
Man

Q.12 निम्नलिखित में से किस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप, कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी, जिसका परिणाम मुद्रास्फीति होगा?

An increase in price of which of these products will have a ripple effect in increasing the prices of many products, thereby resulting in inflation?

Ans


- 1. ऑटोमोबाइल
Automobiles
- 2. पेट्रोलियम
Petroleum
- 3. स्मार्टफोन
Smartphones
- 4. दवाईयाँ
Medicines

Q.13 दिए गए विकल्पों से, निम्न चित्र के घुमाए गए रूप का चयन करें।

Image



Options




A B C D

From the options given, select the rotated version of the following image.

Image



Options



A B C D

Ans

- 1. C
- 2. B
- 3. D
- 4. A

Q.14 दिये गए कथन को सही मानिए और निर्णय कीजिए कि कौन सा (से) निष्कर्ष कथन में दी गई जानकारियों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है (करते हैं)।

कथन:

महानगरों की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ रही है जिससे रहने लायक स्थान की कमी तथा लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आ रही है।

निष्कर्ष:

1. सरकार को शहर विकास की पुनर्योजना बनानी चाहिए।
2. सरकार को अवैध इमारतों को गिरा देना चाहिए और लोगों के लिए छोटे मकान बनाने चाहिए।

Consider the given statement true and decide which of the conclusions logically follow(s) from the information given in the statement.

Statement:

The population in metro cities is increasing tremendously which leads to the shortage of living space and a drop in living conditions of the people.

Conclusions:

1. Government should re-plan city development.
2. Government should demolish illegal buildings and build cottages for people.

Ans

1. न तो 1 और न ही 2 अनुसरण करता है।
Neither conclusion 1 nor 2 follows.
2. केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है।
Only conclusion 2 follows.
3. निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं।
Both conclusions 1 and 2 follow.
4. केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है।
Only conclusion 1 follows.

Q.15 ओक्टेट्स वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व है?

Which of the following is the last element in Newlands Law of Octaves classification?

Ans

1. रेडियम
Radium
2. थोरियम
Thorium
3. लोहा
Iron
4. रोडियम
Rhodium

Q.16 यदि बहुलक और माध्यिका के बीच अंतर 2 है, तो माध्यिका और माध्य के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। (दिए गए क्रम में)

If the difference between the mode and median is 2, then the difference between the median and mean is: (in the given order)

Ans

1. 2
2. 1
3. 3
4. 4

Q.17 जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं, तो करंट का मान:

When a number of resistors are connected in series in a circuit, the value of current:

Ans

1. आधा हो जाता है
becomes half

2. एक ही रहता है
remains the same
3. बढ़ता है
increases
4. कम होता है
decreases

Q.18 सुबह X और Y एक पार्क में एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो Y की छाया सीधे X के सामने पड़ती है। X किस दिशा में मुँह करके खड़ा है?

In the morning X and Y are walking towards each other in a park. When they meet each other, Y's shadow falls straight in front of X. In which direction was X facing?

- Ans
1. पश्चिम
West
2. उत्तर
North
3. पूर्व
East
4. दक्षिण
South

Q.19 उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है:

Name the metal that can be easily cut with a knife:

- Ans
1. तांबा
Copper
2. सोडियम
Sodium
3. सोना
Gold
4. एल्युमीनियम
Aluminium

Q.20 पानी को ब्लैचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है?

Which gas is released when water is added to bleaching powder?

- Ans
1. कार्बन डाई आक्साइड
Carbon dioxide
2. आक्सीजन
Oxygen
3. क्लोरीन
Chlorine
4. हाइड्रोजन
Hydrogen

Q.21 निम्नलिखित में से कौन सी एक त्रिभुजाकार संख्या नहीं है?

Which of the following is not a Triangular number?

Ans ✓ 1. 15

✗ 2. 3

✗ 3. 10

✗ 4. 5

Q.22 दिए गए वक्तव्यों को सच मान कर चले और यह तय करें कि कौन से निष्कर्ष वक्तव्यों में से निश्चित रूप से निकाले जा सकते हैं।

वक्तव्य:

- कुछ फल सब्जियां हैं।
- कुछ सब्जियां खाद्य नहीं हैं।

निष्कर्ष:

- कुछ फल खाद्य नहीं हैं।
- कुछ सब्जियां फल हैं।

Consider the given statements true and decide which of the given conclusions can definitely be drawn from the given statements.

Statements:

- Some fruits are vegetables.
- Some vegetables are not edible.

Conclusions:

- Some fruits are not edible.
- Some vegetables are fruits.

Ans

✓ 1. केवल निष्कर्ष 2 सही है।

Conclusion 2 is correct.

✗ 2. केवल निष्कर्ष 1 सही है।

Conclusion 1 is correct.

✗ 3. 1 और 2 दोनों सही हैं।

Both conclusions 1 and 2 are correct.

✗ 4. 1 और 2 दोनों सही नहीं हैं।

Neither conclusion 1 nor 2 is correct.

Q.23 दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएँ कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन पर्याप्त है/हैं।

क्या $X - 5$ सम संख्या है? X एक वास्तविक संख्या है

कथन:

- $X - 15$ एक पूर्णांक है
- $X - 10$ एक विषम पूर्णांक है

Consider the given question and decide which of the following statements is/are sufficient to answer the question.

Is $X - 5$ even? X is a real number.

Statements:

- $X - 15$ belongs to integer
- $X - 10$ is an odd integer

Ans

✗ 1. कथन 1 और कथन 2 दोनों पर्याप्त हैं

Both statements 1 and 2 are sufficient

✓ 2.

केवल कथन 2 पर्याप्त है जबकि केवल कथन 1 अपर्याप्त है

Statement 2 alone is sufficient while statement 1 alone is insufficient

✗ 3. दोनों कथन 1 और कथन 2 पर्याप्त नहीं हैं

Neither statement 1 nor 2 is sufficient

✗ 4.

केवल कथन 1 पर्याप्त है जबकि केवल कथन 2 अपर्याप्त है

Statement 1 alone is sufficient while statement 2 alone is insufficient

Q.24 4.0 किलोग्राम भार की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5.0 मीटर प्रति सैकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सैकंड तक बढ़ाने के लिए, इसपर किया गया कार्य कितना होगा?

A 4.0 kg object is moving horizontally with a speed of 5.0 m/s. To increase its speed to 10 m/s, the amount of net work required to be done on this object is:

- Ans
- ✓ 1. 150 जूल
150 J
 - ✗ 2. 50 जूल
50 J
 - ✗ 3. 75 जूल
75 J
 - ✗ 4. 100 जूल
100 J

Q.25 चिन्तावान उपन्यास 'हाफ ऑफ वट आई से' के लेखक कौन हैं?

Who is the author of the speculative fiction book 'Half of What I Say'?

- Ans
- ✗ 1. नमिता गोखले
Namita Gokhale
 - ✗ 2. शशि थरूर
Shashi Tharoor
 - ✓ 3. अनिल मेनन
Anil Menon
 - ✗ 4. के. आर. मीरा
K.R. Meera

Q.26 दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है।

कंपनी ABC की बिक्री कैसी रही?

कथन:

1. कंपनी ABC ने 75,000 साबुन ₹ 70/- प्रति नग के हिसाब से बेचे।
2. उत्पादन के क्षेत्र में ABC के पास कोई दूसरा उत्पाद नहीं है।

Consider the given question and decide which of the following statements is sufficient to answer the question.

How was the sale of the company ABC?

Statements:

1. The company ABC sold 75000 units of soaps each at ₹ 70/-.
2. ABC has no other products in the production line.

Ans

- ✗ 1. उचित जवाब देने के लिए कथन 1 अकेले पर्याप्त है, जबकि कथन 2 अकेले पर्याप्त नहीं है।

1 alone is sufficient while 2 alone is not sufficient to answer the question.

✓ 2.

कथन 1 और 2 दोनों ही उचित जवाब देने के लिए पर्याप्त हैं।

Both 1 and 2 are sufficient to answer the question.

✗ 3.

उचित जवाब देने के लिए न तो कथन 1 न ही 2 पर्याप्त है।

Neither 1 nor 2 is sufficient to answer the question.

✗ 4.

उचित जवाब देने के लिए कथन 2 अकेले पर्याप्त है, जबकि कथन 1 अकेले पर्याप्त नहीं है।

2 alone is sufficient while 1 alone is not sufficient to answer the question.

Q.27 फरवरी 2018 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (पीएमईएसी) के अध्यक्ष कौन हैं?

Who is the Chairman of the Economic Advisory Council to the Prime Minister (PMEAC) as of February 2018?

Ans

✗ 1. अमित मित्रा

Amit Mitra

✗ 2. अमर्त्य सेन

Amartya Sen

✓ 3. बिबेक देबराँय

Bibek Debroy

✗ 4. नजमा हेपतुल्ला

Najma Heptulla

Q.28 एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक 100 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए 10 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात करें।

A train takes 10 seconds to cross a bridge of length 100 m travelling at 90 kmph. Find the length of the train in metres.

Ans

✗ 1. 140

✓ 2. 150

✗ 3. 130

✗ 4. 120

Q.29 प्रतिरोध की एस.आई. इकाई है:

The SI unit of resistance is:

Ans

✗ 1. जूल

Joule

✗ 2. कूलम्ब

Coulomb

✓ 3. ओम

Ohm

✗ 4. न्यूटन

Newton

Q.30

दिए गए कथन पर विचार करें और तय करें कि दी गई अनुमानों में से कौन-सी/से कथन में अन्तर्निहित है/हैं।

कथन:

ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है।

अनुमान:

- (I) ईमानदार लोग नीति बनाते हैं।
- (II) हर नीति में ईमानदारी होनी ही चाहिए।

Consider the given statement and decide which of the given assumptions is/are implicit in the statement.

Statement:

Honesty is the best policy.

Assumptions:

- (I) Honest people are policy makers.
- (II) Each policy must contain honesty.

Ans

- ✓ 1. न तो अनुमान (I) और न (II) निहित है।
Neither assumption (I) nor (II) is implicit.
- ✗ 2. केवल अनुमान (I) निहित है।
Only assumption (I) is implicit.
- ✗ 3. केवल अनुमान (II) निहित है।
Only assumption (II) is implicit.
- ✗ 4. अनुमान (I) और (II) दोनों ही निहित हैं।
Both assumptions (I) and (II) are implicit.

Q.31 तमिलनाडु के नए नियुक्त राज्यपाल (फरवरी 2018 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार) कौन हैं?

Who is the newly appointed Governor of Tamil Nadu as of February 2018?


Ans

- ✗ 1. सत्यपाल मलिक
Satyapal Malik
- ✗ 2. सुब्रमण्यम स्वामी
Subramanian Swamy
- ✓ 3. बनवारीलाल पुरोहित
Banwarilal Purohit
- ✗ 4. के. रोसैया
K Rosaiah


Q.32

उस उत्तर-आकृति (Answer Figure) का चयन करें जो दी गई प्रश्न-आकृति (Problem Figure) के रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त है।

Problem Figure




Answer Figures




Select the Answer Figure that fits in the blank space in the given Problem Figure.

Problem Figure



Answer Figures



- Ans
- 1. B
 - 2. D
 - 3. A
 - 4. C

Q.33 सर्च लाइट का परावर्तक कौनसा है:

The reflector of a search light is a:

- Ans
- 1. समतल दर्पण
plane mirror
 - 2. अवतल दर्पण
concave mirror
 - 3. बेलनाकार दर्पण
cylindrical mirror
 - 4. उत्तल दर्पण
convex mirror

Q.34 उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे चित्र से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा चित्र पहले चित्र से संबंधित है।



Select the option that is related to the third figure in the same way as the second figure is related to the first figure.



- Ans
- 1.
 - 2.
 - 3.



Q.35 रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें ।

वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं, वे _____ समूह से संबंधित हैं।

Fill in the blank with the most appropriate option.

Plants that do not have a differentiated plant body belong to the group _____.

Ans

1. टेरिडोफाइटा
Pteridophyta
2. फेनरोगेम्स
Phanerogams
3. थैलोफाइटा
Thallophyta
4. ब्रायोफाइटा
Bryophyta

Q.36 ₹ 1600 की राशि पर 6 साल की अवधि के लिए, 5% वार्षिक साधारण दर पर अर्जित ब्याज कितना होगा?

The interest earned on ₹ 1,600 at the rate of 5% simple interest per annum for 6 years would be:

Ans

1. ₹ 496
2. ₹ 2,080
3. ₹ 480
4. ₹ 450

Q.37 निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द जोड़ी का चयन करें।

हंस : हंसों :: _____

Select the related word pair from the following options.

Goose : Geese :: _____

Ans

1. मोज़ों : मोज़ा
Socks : Sock
2. कमीज़ों : कमीज़
Shirts : Shirt
3. जैकेट : जैकेट
Jacket : Jacket
4. पतलून : पतलूनों
Pant : Pants

Q.38 निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

Which of the following is true?

Ans

1. $\frac{29}{6} > \frac{43}{12}$

✗ 2. $\frac{29}{6} = \frac{43}{12}$

✗ 3. $\frac{29}{6} < \frac{43}{12}$

✗ 4. $\frac{29}{6} = \frac{53}{12}$

Q.39 निम्नलिखित श्रृंखला में, प्रश्न चिह्न (?) द्वारा दिखाया गया पद अनुपस्थित है। दिए गए विकल्पों से अनुपस्थित पद का चयन करें।

ST, TU, UV, VW, ?

In the following series, one term is missing as shown by the question mark (?). Select the missing term from given options.

ST, TU, UV, VW, ?

Ans ✗ 1. WY

✓ 2. WX

✗ 3. WZ

✗ 4. WV

Q.40 रैनवियर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं, जो _____ में पाया जाता है।

Nodes of Ranvier are microscopic gaps found within:

Ans ✓ 1. मायेलिनकृत एक्सोन

myelinated axons

✗ 2. ग्रंथि कोशिकाओं

gland cells

✗ 3. ऑस्टिओब्लास्ट्स

osteoblasts

✗ 4. कोन्ड्रोब्लास्ट्स

chondroblasts

Q.41 दिए गए कथन पर विचार करें और तय करें कि दिये गए अनुमानों में से कौन-सी/से कथन में अन्तर्निहित है/हैं।

कथन:

अध्यापकों को कार्यशाला में भाग लेना चाहिए।

अनुमान:

(I) कार्यशाला अध्यापकों के ज्ञान को सामयिक बनाती है।

(II) कार्यशालाएँ समय बर्बाद करती हैं।

Consider the given statement and decide which of the given assumptions is/are implicit in the statement.

Statement:

Teachers must attend workshop.

Assumptions:

(I) Workshop updates teachers.

(II) Workshops kill time.

Ans ✓ 1. केवल अनुमान (I) निहित है।

Only assumption (I) is implicit.

- ✗ 2. अनुमान (I) और (II) दोनों ही निहित हैं ।
Both assumptions (I) and (II) are implicit.
- ✗ 3. केवल अनुमान (II) निहित है ।
Only assumption (II) is implicit.
- ✗ 4. न तो अनुमान (I) और न (II) निहित है ।
Neither assumption (I) nor (II) is implicit.

Q.42 किसी दर्पण को जब नीचे दिये गए शब्द के नीचे क्षैतिज रखा जाता है, तो उसके द्वारा निर्मित दर्पण छवि का चयन कीजिए?

HEALTHY

Select the option that depicts the correct mirror image of the given word when the mirror is placed horizontally below the word.

HEALTHY

- Ans
- ✗ 1. YHTLAEH
- ✗ 2. YHTLAEH
- ✓ 3. HEVΓLHΛ
- ✗ 4. YHTJAEH

Q.43 पीर पंजाल रेलवे सुरंग _____ में स्थित है।

Pir Panjal Railway Tunnel is located in _____.

- Ans
- ✓ 1. जम्मू-कश्मीर
Jammu and Kashmir
- ✗ 2. हिमाचल प्रदेश
Himachal Pradesh
- ✗ 3. उत्तराखंड
Uttarakhand
- ✗ 4. सिक्किम
Sikkim

Q.44 दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है।

क्या राजू को यात्रा करना पसंद है ?

वाक्य :

1. राजू ने भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण, सभी प्रांतों का दर्शन किया है।
2. राजू को अपने दोस्तों के साथ रहना बहुत पसंद है।

Consider the given question and decide which of the following statements is sufficient to answer the question.

Is Raju fond of travelling?

Statements:

1. Raju has seen East, West, North and Southern parts of India.
2. Raju likes to be in the company of his friends.

- Ans
- ✗ 1.

प्रश्न का उत्तर देने के लिए, दोनों वाक्य एक साथ पर्याप्त हैं, परंतु दोनों ही वाक्य अकेले पर्याप्त नहीं हैं।

Both statements taken together are sufficient to answer the question, but neither statement alone is sufficient.

✗ 2.

प्रश्न का उत्तर देने के लिए, वाक्य 2 केवल पर्याप्त है परंतु वाक्य 1 केवल पर्याप्त नहीं है।

Statement 2 alone is sufficient but statement 1 alone is not sufficient to answer the question.

✗ 3.

वाक्य 1 एवं 2 साथ में, पर्याप्त नहीं हैं और प्रश्न का उत्तर देने के लिए अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है।

Statements 1 and 2 together are not sufficient, and additional data is needed, to answer the question.

✓ 4.

प्रश्न का उत्तर देने के लिए, वाक्य 1 केवल पर्याप्त है परंतु वाक्य 2 केवल पर्याप्त नहीं है।

Statement 1 alone is sufficient but statement 2 alone is not sufficient to answer the question.

Q.45 एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है?

The number of neutrons in an atom is equal to the:

Ans

✓ 1.

द्रव्यमान संख्या - परमाणुओं की संख्या

Mass number – atomic number

✗ 2.

परमाणु संख्या

Atomic number

✗ 3.

इलेक्ट्रॉनों की संख्या

Number of electrons

✗ 4.

द्रव्यमान संख्या

Mass number

Q.46 अब से सात साल बाद, विराट मोहिन्दर से दोगुना बड़ा होगा। पांच साल पहले मोहिंदर की आयु, विराट की आयु के $\frac{2}{5}$ से एक वर्ष कम थी। विराट की वर्तमान आयु क्या है?

Seven years from now Virat will be twice as old as Mohinder. Five years ago Mohinder's age was one year less than $\frac{2}{5}$ of Virat's age. What is Virat's present age?

Ans

✗ 1.

53 वर्ष

53 years

✗ 2.

57 वर्ष

57 years

✗ 3.

51 वर्ष

51 years

✓ 4.

55 वर्ष

55 years

Q.47 एक स्विमिंग पूल को तीन टैंकरों A, B और C के माध्यम से 10 घंटे में भरा जाता है। टैंकर C टैंकर B से दोगुना तेज है और टैंकर B टैंकर A से दोगुना तेज है। स्विमिंग पूल को टैंकर A के द्वारा अकेले भरने में कितना समय लगेगा?

A swimming pool is filled in 10 hours by three tankers A, B and C. The tanker C is twice as fast as B and B is twice as fast as A. How much time will tanker A alone take to fill the swimming pool?

Ans

✗ 1.

90 घंटे

90 hours

- ✗ 2. 80 घंटे
80 hours
- ✗ 3. 40 घंटे
40 hours
- ✓ 4. 70 घंटे
70 hours

Q.48 नीचे दिए गए अनुक्रम में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले कोई संख्या आती है?

R+JM2\$#QR?*O@7F3

The number of symbols that are preceded by a number in the given expression is _____.

R+JM2\$#QR?*O@7F3

- Ans ✗ 1. 3
- ✓ 2. 1
- ✗ 3. 2
- ✗ 4. 4

Q.49 दिये गए कथन पर विचार करें और तय करें कि दी गई पूर्वधारणाओं में से कौन-सी/से कथन में अन्तर्निहित है/हैं।

कथन:

अपार्टमेंट एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया 'स्वच्छ भारत', अपने शहर को साफ रखें, अभियान को उसके निवासियों से ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिल पायी।

पूर्वधारणा:

- स्थानीय निवासी अपने अपार्टमेंट को साफ नहीं रखना चाहते।
- एसोसिएशन अभियान में असफल रही।

Consider the given argument and decide which of the given assumptions is/are implicit in the argument.

Argument:

The campaign of 'Swachh Bharat', keep your cities clean, started by the apartment association didn't bring much response from its residents.

Assumptions:


- Residents do not wish to keep their apartment clean.
- The association had failed in the campaign.

- Ans ✓ 1. केवल पूर्वधारणा 2 अंतर्निहित है।
Only assumption 2 is implicit.
- ✗ 2. न तो 1 और न ही 2 अंतर्निहित है।
Neither 1 nor 2 is implicit.
- ✗ 3. केवल पूर्वधारणा 1 अंतर्निहित है।
Only assumption 1 is implicit.
- ✗ 4. 1 और 2 दोनों पूर्वधारणाएं अंतर्निहित हैं।
Both 1 and 2 are implicit.


Q.50

उस आकृति का चयन करें जो निम्नांकित समूह से संबंधित नहीं है।

Chosen Option :--




Select the figure that does NOT belong in the following group.



- Ans
- 1. A
 - 2. C
 - 3. D
 - 4. B

Q.51 निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद हैं?



How many triangles are present in the following figure?



- Ans
- 1. 11
 - 2. 13
 - 3. 10
 - 4. 12

Q.52 निम्नलिखित में से कौन 15376 का वर्गमूल है?

Which of the numbers given below is the square root of 15376?

- Ans
- 1. 128
 - 2. 134
 - 3. 122
 - 4. 124

Q.53 उमर और अविनाश ने क्रमशः ₹ 10,000 और ₹ 15,000 के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण, अविनाश ने 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया। पहले बारह मास का लाभ दोनों में किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए?

Umar and Avinash started a partnership with investments of ₹ 10,000 and ₹ 15,000, respectively but due to a financial emergency the latter had to withdraw his investment after 8 months. In what ratio should the profit of the first twelve months be shared among the duo?

- Ans
- 1. 3 : 2

✓ 2. 1 : 1

✗ 3. 2 : 3

✗ 4. 1 : 2

Q.54 एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की एक तिहाई है, एक गोलार्ध के आयतन के बराबर है। शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात कितना है?

The volume of a right circular cone, whose radius of the base is same as one-third of its altitude, and the volume of a sphere are equal. The ratio of the radius of the cone to the radius of the sphere is:

Ans ✗ 1. $\sqrt[3]{3} : \sqrt[3]{2}$

✗ 2. 1 : 1

✗ 3. $\sqrt[3]{4} : 1$

✓ 4. $\sqrt[3]{4} : \sqrt[3]{3}$

Q.55 मजदूरों के दो प्रकार हैं। पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर से तीन गुना ज्यादा कार्य करते हैं। पहले प्रकार के 12 मजदूर किसी कार्य को 10 दिनों में कर डालते हैं। इसी कार्य को पूरा करने के लिए 4 पहले प्रकार के मजदूरों और 8 दूसरे प्रकार के मजदूरों को कितना समय लगेगा?

Type 1 workers can do three times the work of Type 2 workers. Twelve Type 1 workers can complete a task in 10 days. How many days would it have taken 4 Type 1 and 8 Type 2 workers to complete the same task?

Ans ✗ 1. 20

✓ 2. 18

✗ 3. 16

✗ 4. 17

Q.56 अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है, अलैंगिक प्रजनन में _____

Asexual reproduction differs from sexual reproduction in that in asexual reproduction, _____

Ans ✗ 1. युग्मक के केंद्रकों का संलयन होता है।

the nuclei of gametes fuse

✗ 2. प्रजनन में युग्मक पैदा होते हैं।

the gametes are produced in reproduction

✗ 3. वंश विविधताओं को दर्शाता है।

the offspring shows variations

✓ 4.

नए जीव जनक माता-पिता के समान होते हैं।

the new organisms are genetically identical to the parent

Q.57 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं?

How many atoms are present in a $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ molecule?

Ans ✓ 1. 15

✗ 2. 14

✗ 3. 12

✗ 4. 13

Q.58

किसी थैले में लाल और नीले रंग के गेंदों की संख्याओं का अनुपात स्थिर है। जब उसमें 44 लाल गेंदें थीं तो नीले गेंदों की संख्या 36 थी। यदि नीले गेंदों की संख्या 54 हो तो थैले में लाल गेंदों की संख्या कितनी होगी?

The ratio of the numbers of blue to red balls in a bag is constant. When there were 44 red balls, the number of blue balls was 36. If the number of blue balls is 54, how many red balls will be in the bag?

- Ans
- 1. 64
 - 2. 66
 - 3. 62
 - 4. 68

Q.59 किस सांविधिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किये गये थे?

By which legislation were India and Pakistan divided into two independent nations?

- Ans
- 1. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947
Indian Independence Act 1947
 - 2. पाकिस्तान स्वतंत्रता अधिनियम 1947
Pakistan Independence Act 1947
 - 3. भारतीय विभाजन अधिनियम 1947
Indian Partition Act 1947
 - 4. पाकिस्तान विभाजन अधिनियम 1947
Pakistan Partition Act 1947

Q.60 एक लड़की की तस्वीर को देखकर, शिशा नामक एक लड़की ने कहा, "उसकी मां मेरे नानाजी की इकलौती बेटी है, और उनकी केवल एक बेटी है और कोई बेटा नहीं है।" शिशा तस्वीर की लड़की से कैसे संबंधित है?

Looking at the portrait of a girl, Sheesha, a girl, said, "Her mother is my grandfather's only daughter who has only one daughter and no sons". How is Sheesha related to the girl in the portrait?

- Ans
- 1. भांजी/भतीजी
Niece
 - 2. बहन
Sister
 - 3. चाची /मामी /फूफी /बुआ /मौसी /ताई (Aunt)
Aunt
 - 4. तस्वीर की लड़की खुद शिशा है
Sheesha is the girl in the portrait

Q.61 भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान (फरवरी 2018 के अनुसार) अध्यक्ष कौन हैं?

Who is the current (as of February 2018) President of the Indian Olympic Association?

- Ans
- 1. शरद पवार
Sharad Pawar
 - 2. नरेंद्र ध्रुव बत्रा
Narinder Dhruv Batra
 - 3. अभिनव बिंद्रा
Abhinav Bindra
 - 4. प्रणय रॉय
Prannoy Roy


संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है?

Momentum is measured as the product of :

Ans


- 1. द्रव्यमान और त्वरण
Mass and acceleration
- 2. द्रव्यमान और जड़ता
Mass and inertia
- 3. द्रव्यमान और वेग
Mass and velocity
- 4. द्रव्यमान और बल
Mass and force

Q.63



→ Boys → Athletic
 → Cricket → Disciplined

दिये गए वेन आरेख के अनुसार, कौन सा नंबर 'लड़के जो एथलेटिक्स में भाग लेते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं' को दर्शाता है?



→ Boys → Athletic
 → Cricket → Disciplined

According to the given Venn diagram, which number represents 'Boys who participate in athletics and also play cricket'?

Ans

- 1. 2
- 2. 3
- 3. 1
- 4. 11

Q.64 मेंडेलीव की आवर्त सारणी में, तत्वों के गुणों को उनके _____ का आवधिक स्वभाव माना जाता है।

In Mendeleev's periodic table, the properties of the elements are considered a periodic function of their:

Ans

- 1. परमाणु संख्या
Atomic number
- 2. परमाणु द्रव्यमान
Atomic mass
- 3. आयनीकरण एंथैलेपी
Ionization enthalpy
- 4. परमाणु के आकार
Atomic size

Q.65 दिए गए प्रश्न पर विचार करें और तय करें कि निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है।

X और Y में कौन है बेहतर नर्तक है?

कथन:

1. X ने अधिक नृत्य ऑडिशन दिए थे।
2. Y ने मंच पर अधिक प्रदर्शन दिया था।

Consider the given question and decide which of the following statements is/are sufficient to answer the question.

Between X and Y who is the better dancer?

Statements:

1. X had given more dance auditions.
2. Y had given more stage performances.

Ans 1.

न तो कथन 1 और न कथन 2 पर्याप्त है

Neither statement 1 nor 2 is sufficient

2.

अकेले कथन 2 पर्याप्त है, जबकि कथन 1 अकेले अपर्याप्त है

Statement 2 alone is sufficient while statement 1 alone is insufficient

3.

अकेले कथन 1 पर्याप्त है जबकि कथन 2 अकेले अपर्याप्त है

Statement 1 alone is sufficient while statement 2 alone is insufficient

4. कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त हैं

Both statement 1 and 2 are sufficient

Q.66 निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है?

Which of the following acids is present in Red Ants?

Ans

1. मेलिक अम्ल

Malic acid

2. ऑक्सैलिक अम्ल

Oxalic acid

3. फॉर्मिक अम्ल

Formic acid

4. टैनिनिक अम्ल

Tannic acid

Q.67 दिए गए मर्दों के समूह के लिए सबसे उपयुक्त शब्द चुनें।



Select the most appropriate term for the following set of items.



Ans

1. उत्सव

Celebration

- 2. मुलाकात
Meeting
- 3. शादी
Marriage
- 4. पुस्तकें
Books

Q.68 दो अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो इसके अंकों के गुणनफल की तीन गुना है।

Find a two digit number which is exactly three times the product of its digits?

- Ans
- 1. 36
 - 2. 12
 - 3. 48
 - 4. 24

Q.69 'दी एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बॉम्ब्स' पुस्तक के लेखक कौन हैं, जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय डबलिन लिटरेरी अवार्ड के लिए चुने गए हैं?

Who is the author of the book 'The Association of Small Bombs', which is currently shortlisted for the International Dublin Literary Award?

- Ans
- 1. नमिता गोखले
Namitha Ghokhale
 - 2. अरुंधति रॉय
Arundhathi Roy
 - 3. चेतन भगत
Chetan Bhagat
 - 4. करन महाजन
Karan Mahajan

Q.70 फरवरी 2018 से, कोलकाता की आईपीएल टीम 'कोलकाता नाइट राइडर्स' का मालिक कौन है?

As of February 2018, who owns the Kolkata-based IPL team 'Kolkata Knight Riders'?

- Ans
- 1. सौरव गांगुली
Sourav Ganguly
 - 2. आमिर खान
Aamir Khan
 - 3. शाहरुख खान
Shah Rukh Khan
 - 4. सुब्रत रॉय
Subrata Roy

Q.71 अब से तीन वर्ष बाद, धरत्री की आयु, युनीस की आयु के दोगुना से आठ वर्ष कम होगी। इन दोनों की वर्तमान आयु का योग 61 वर्ष है। धरत्री की वर्तमान आयु कितनी है?

Three years from now Dharitri's age will be eight years less than twice Eunice's age. The sum of their present ages is 61 years. What is Dharitri's present age?

- Ans
- 1. 39 वर्ष
39 years

- 2. 41 वर्ष
41 years
- 3. 43 वर्ष
43 years
- 4. 36 वर्ष
36 years

Q.72 ABC\$+#DEF&=?GHI!2*#@

ऊपर दिए अनुक्रम का उपयोग करके खाली स्थान भरें:

ABC : @*2 :: \$#E : _____

ABC\$+#DEF&=?GHI!2*#@

Find the missing term using the above sequence:

ABC : @*2 :: \$#E : _____.

- Ans
- 1. !H?
 - 2. ?H!
 - 3. !HG
 - 4. HH!

Q.73 1 kWh = ?

- Ans
- 1. 3.6×10^6 J
 - 2. 3.6×10^5 J
 - 3. 3.6×10^{-5} J
 - 4. 3.6×10^{-6} J

Q.74 किसी कक्षा में 9 छात्र और कुछ छात्राएं हैं। किसी परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 12 है और छात्राओं के प्राप्तांकों का औसत 14 है। यदि सभी छात्रों के कुल प्राप्तांकों का औसत 13.1 हो तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी?

In a class, there were 9 boys and some girls. In a test the mean score obtained by the boys was 12 while that obtained by the girls was 14. If the overall average was 13.1, what was the total number of students in the class?

- Ans
- 1. 22
 - 2. 19
 - 3. 20
 - 4. 21

Q.75 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्ष में ₹ 942 हो जाती है। आरंभ में किया गया निवेश कितना था?

At 9.5% simple interest per annum a sum of money became ₹ 942 in 6 years. The sum initially invested was:

- Ans
- 1. ₹ 626
 - 2. ₹ 600
 - 3. ₹ 675
 - 4. ₹ 650

